

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27—जनवरी 2, 2015 (पौष 6, 1936)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27—JANUARY 2, 2015 (PAUSA 6, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2014

थल सेना विभाग

सं 298, दिनांक 9 दिसम्बर 2014—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस—12485ए कप्तान वरुन राणा

— 07-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 07-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12487एल कप्तान सम्पन्न चौधरी — 09-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 09-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12489डब्ल्यू कप्तान तपन सिंह — 12-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12-08-2009 से दी जाती है । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12493वाई कप्तान किरंतात भूषण — 16-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16-08-2009 से दी जाती है । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12494एफ कप्तान देसाई जमिंश भाविक कुमार — 16-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12499ए कप्तान सोनवणे द्रैवेंद्र लोटेश — 19-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12500के कप्तान नुकला अनिकेत रामामूर्ती — 20-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12504ए कप्तान हिमांशु ठुकराल — 22-02-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22-02-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12505एच कप्तान सुश्री अदिति रावत — 02-03-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 02-03-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12508डब्ल्यू कप्तान सुश्री सुष्मिता देबनाथ — 10-03-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 10-03-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12510एन कप्तान सुश्री जसमीत गिल — 14-03-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 14-03-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12511डब्ल्यू कप्तान सलीम अखतर — 14-03-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 14-09-2009 से दी जाती है । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डी एस-12527एफ (सुश्री) हरमनप्रीत अटवाल — 27-12-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27-06-2013 से दी जाती है । इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह के लिए दी गई ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

16 अगस्त 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

डीएस-12540एल लखवीर कौर — 27-12-2013

वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27-06-2010 से दी जाती है । इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

22 फरवरी 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

एच एस संधू
ब्रिगेडियर

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

सं 299, दिनांक 9 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 04 मार्च 2013 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

लेफ्टिनेंट परख पर

ले० मन्दीप कौर

एन आर-23076 एम

07 नवम्बर 1983

अल्प अवधि आयोग

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 15 मई 2013 (बी एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता, (वेतनमान नियमित एवं पदोन्नति के लिये) 15 मई 2012 से) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं :-

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० जिशा एस रमन	एन एस-23123 वाई	05 फरवरी 1989
ले० ज्योति आर नायर	एन एस-23124 एफ	17 मार्च 1988

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० पी मनीमाला	एन एस-23126 एम	17 मई 1989
ले० आर्य अरविन्द	एन एस-23127 पी	21 जनवरी 1990
ले० मधु सिंह	एन एस-23128 एक्स	24 अप्रैल 1990
ले० सरिता	एन एस-23129 ए	25 जनवरी 1989
ले० एस जेमिला जोसफिन	एन एस-23130 पी	07 मई 1989
ले० पी देबोराह	एन एस-23131 एक्स	04 अप्रैल 1985
ले० रश्मि के वी	एन एस-23132 ए	24 जून 1989
ले० कीर्तिगा उषा आर	एन एस-23133 एच	15 जून 1991
ले० ग्रेस सुजा एस	एन एस-23134 एल	13 मार्च 1987
ले० नीनू एस	एन एस-23135 एन	19 मई 1989
ले० सयानामैरी इ एस	एन एस-23137 वाई	31 मार्च 1988
ले० रम्या राज आर	एन एस-23138 एफ	09 जून 1988
ले० प्रोमिला देवी	एन एस-23140 वाई	03 अगस्त 1988
ले० सुलोचना कुमारी	एन एस-23141 एफ	26 सितम्बर 1989
ले० दीपा टी	एन एस-23142 के	29 मार्च 1990
ले० ममता अकोडिया	एन एस-23144 पी	30 अक्टूबर 1988
ले० राजेशवरी एस	एन एस-23145 एक्स	05 जून 1986
ले० दिव्या थॉमस	एन एस-23146 ए	15 जून 1986
ले० शशिकला टी	एन एस-23148 एल	24 नवम्बर 1983
ले० किरण धीमन	एन एस-23149 एन	03 दिसम्बर 1989
ले० हर्षनदीप कौर	एन एस-23150 एच	25 जुलाई 1985
ले० श्रीजा कुमारी एस यू	एन एस-23151 एल	31 मई 1988
ले० ज्योति गिरी	एन एस-23152 एन	25 मई 1989
ले० पेमा यंगजम	एन एस-23153 डब्ल्यू	29 अक्टूबर 1986
ले० तरनदीप कौर	एन एस-23154 वाई	19 अप्रैल 1988
ले० लक्ष्मी एस नायर	एन एस-23155 एफ	13 मई 1986
ले० रमनजीत कौर	एन एस-23156 के	08 नवम्बर 1989
ले० सुगीश्ना सुरेश	एन एस-23157 एम	18 अगस्त 1989
ले० अनु धतवला	एन एस-23158 पी	18 दिसम्बर 1988
ले० शिल्पी मोनी बरूआ	एन एस-23159 एक्स	31 दिसम्बर 1987

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० तेलवुम नांगनिमोइ हॉकिप	एन एस-23160 एम	29 मार्च 1989
ले० ज्योति राणा	एन एस-23161 पी	30 जुलाई 1991
ले० मोनिका सोनी	एन एस-23162 एक्स	05 जुलाई 1987
ले० मनबीर कौर	एन एस-23163 ए	17 अप्रैल 1989
ले० गोडामीडी रेखा	एन एस-23164 एच	15 जुलाई 1989
ले० सीमा कुमारी	एन एस-23168 वाई	13 अक्टूबर 1986
ले० स्टेफी जोस	एन एस-23169 एफ	05 मई 1988
ले० प्रीती एस	एन एस-23170 डब्ल्यू	10 मार्च 1989
ले० श्वेता पाण्डे	एन एस-23171 वाई	28 जुलाई 1988
ले० नयना जी पिल्लै	एन एस-23172 एफ	11 अप्रैल 1989
ले० प्रींसी विल्सन	एन एस-23173 के	18 सितम्बर 1991
ले० एन प्रियदर्शिनी	एन एस-23174 एम	28 सितम्बर 1986
ले० धन्या कृष्णा डी	एन एस-23175 पी	08 सितम्बर 1987
ले० पूजा कुमारी	एन एस-23176 एक्स	02 जनवरी 1990
ले० वसुदेवा रजनी	एन एस-23177 ए	18 जून 1987
ले० सौम्यामोल एस एन	एन एस-23178 एच	11 अप्रैल 1988
ले० डी शालिनी	एन एस-23180 ए	01 मई 1987
ले० शालू एस कुमार	एन एस-23181 एच	11 अक्टूबर 1989
ले० भारती मुन्नानगी	एन एस-23182 एल	16 सितम्बर 1985
ले० सुनीता जी गोपाल	एन एस-23183 एन	07 सितम्बर 1989
ले० लिनी ल्यूकोस	एन एस-23184 डब्ल्यू	09 जून 1988
ले० तुषारा एम आर	एन एस-23185 वाई	08 नवम्बर 1988
ले० मर्विन थॉमस	एन एस-23186 एफ	28 मार्च 1988
ले० अक्षरा राज	एन एस-23188 एम	18 सितम्बर 1990
ले० पवित्रा बी एस	एन एस-23189 पी	21 मार्च 1989
ले० गुरलीन कौर	एन एस-23190 के	07 सितम्बर 1987
ले० बेस्था चन्द्रकला	एन एस-23191 एम	09 जुलाई 1990
ले० मन्जु कुमारी	एन एस-23192 पी	14 नवम्बर 1983
ले० राखी आर	एन एस-23193 एक्स	02 मई 1989
ले० जैन्सी क्लीट्स	एन एस-23194 ए	30 मई 1986
ले० रानी जॉर्ज	एन एस-23195 एच	29 जनवरी 1990

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० एम सुभाषिनी	एन एस-23196 एल	20 फरवरी 1991
ले० विजया भारती वी	एन एस-23197 एन	10 जुलाई 1990
ले० टेसा इमैन्जुल वीडोन	एन एस-23198 डब्ल्यू	21 अगस्त 1984
ले० देवी एस नायर	एन एस-23199 वाई	11 अगस्त 1988
ले० निमी श्रीप्रिया	एन एस-23200 एच	08 अक्टूबर 1986
ले० जी गायत्री	एन एस-23201 एल	13 दिसम्बर 1986
ले० तमिलसेल्वी टी	एन एस-23202 एन	06 अक्टूबर 1987
ले० अनिता कांडपाल	एन एस-23203 डब्ल्यू	11 मार्च 1989
ले० दीपिका आर	एन एस-23204 वाई	29 मई 1989
ले० एम कीर्ति	एन एस-23205 एफ	22 सितम्बर 1989
ले० गगनदीप कौर	एन एस-23206 के	01 नवम्बर 1988
ले० अनीता मोर्य	एन एस-23207 एम	08 अगस्त 1989
ले० जसविन्दर कौर	एन एस-23208 पी	02 अगस्त 1985
ले० शोभारानी गोडगु	एन एस-23209 एक्स	27 नवम्बर 1986
ले० विजिला के वी	एन एस-23210 एम	15 अप्रैल 1990
ले० नीतुमोल जोसफ	एन एस-23211 पी	16 जनवरी 1989
ले० राधिका कुमारी	एन एस-23212 एक्स	18 अगस्त 1988
ले० स्टेफी थॉमस	एन एस-23213 ए	02 सितम्बर 1989
ले० नवजोत कौर	एन एस-23214 एच	14 नवम्बर 1986
ले० उदयश्री वीनाकोटा	एन एस-23215 एल	06 मई 1987
ले० देवुमोल जे	एन एस-23216 एन	25 मई 1988
ले० पूनम राणा	एन एस-23217 डब्ल्यू	21 जनवरी 1990
ले० लीना अब्राहम	एन एस-23218 वाई	22 दिसम्बर 1987
ले० कृष्णा प्रिया वी एन	एन एस-23219 एफ	25 मई 1989
ले० निशा यादव	एन एस-23220 डब्ल्यू	23 दिसम्बर 1989
ले० मोधिनी पी	एन एस-23221 वाई	21 अगस्त 1990
ले० एकता शर्मा	एन एस-23222 एफ	29 जनवरी 1990
ले० आरती जी पी	एन एस-23223 के	04 नवम्बर 1988
ले० लक्ष्मी प्रिया सिंगीरीसु	एन एस-23224 एम	21 जून 1987
ले० मानिका	एन एस-23225 पी	21 मार्च 1991
ले० अमरजीत कौर	एन एस-23226 एक्स	27 सितम्बर 1988
ले० सुशीला	एन एस-23228 एच	10 अगस्त 1987
ले० रीनु नासर	एन एस-23229 एल	18 मई 1990
ले० जिबिला पी के	एन एस-23230 ए	14 फरवरी 1990

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० अबिथा एलेक्स	एन एस-23231 एच	15 जनवरी 1989
ले० श्री लक्ष्मी जी एस	एन एस-23233 एन	08 मई 1988
ले० कोमल प्रीत कौर	एन एस-23234 डब्ल्यू	05 नवम्बर 1989
ले० रमनदीप कौर	एन एस-23235 वाई	25 नवम्बर 1990
ले० स्टेफी कुरियाकोस	एन एस-23236 एफ	05 जुलाई 1988
ले० सरिता एस	एन एस-23237 के	10 अप्रैल 1989
ले० सुधा तलीकोटी	एन एस-23238 एम	01 अगस्त 1987
ले० इ शालिनी	एन एस-23239 पी	27 मई 1990
ले० लीना मथाई	एन एस-23240 के	29 अप्रैल 1987
ले० सारिका रमनन	एन एस-23241 एम	17 मार्च 1988
ले० शिमाली पठानिया	एन एस-23242 पी	11 अगस्त 1988
ले० मालती	एन एस-23243 एक्स	30 अगस्त 1988
ले० विद्या पी	एन एस-23244 ए	25 अक्टूबर 1988
ले० ग्लिंटा राजू	एन एस-23245 एच	09 मार्च 1984
ले० नीतु सबास्टियन	एन एस-23246 एल	28 दिसम्बर 1989

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

सेना शाखा

सं 300, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित कप्तानों को परखाधीन समाप्त होने पर उनकी सेवा की, उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से पुष्टि करते हैं :-

नियमित सेना अल्पकालीन कमीशन

1.	वीएस- 1199 वाई	सोनु महेश	आरवीसी	12 अगस्त 2013
2.	वीएस- 1200 एच	सुरेन्दर कुमार	आरवीसी	12 अगस्त 2013
3.	वीएस- 1201 एल	अनुराग चंद्रा हति बरुआ	आरवीसी	12 अगस्त 2013
4.	वीएस- 1202 एन	पवन कुमार	आरवीसी	12 अगस्त 2013
5.	वीएस- 1203 डब्ल्यू	भानु प्रताप सिंह ठाकुर	आरवीसी	12 अगस्त 2013
6.	वीएस- 1204 वाई	अल्फैज रशीद	आरवीसी	12 अगस्त 2013
7.	वीएस- 1205 एफ	विरेन्दर प्रताप राणा	आरवीसी	12 अगस्त 2013
8.	वीएस- 1206 के	मूल चंद यादव	आरवीसी	12 अगस्त 2013
9.	वीएस- 1207 एम	जॉन्स बोबी	आरवीसी	12 अगस्त 2013
10.	वीएस- 1208 पी	जगदीप	आरवीसी	12 अगस्त 2013

दीपक नारंग
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 301, दिनांक 10 दिसम्बर 2014—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)
कर्नल से ब्रिगेडियर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
क	डी एस-10371 डब्ल्यू	अनिल ढिंगरा	26-03-2012 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 01-01-2012 से दी जाती है जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी आर-10585 एम	मेजर	राज कुमार के	19-06-2014

सजेन्ट ले0 कमाण्डर से सजेन्ट कमाण्डर के पद पर

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
क	डी आर-10596वाई	सजेन्ट ले0 कमाण्डर कमलपाथे के	19-08-2014
ख	डी आर-10587एक्स	सजेन्ट ले0 कमाण्डर सौगत रे	08-09-2014
ग	डी आर-10598के	सजेन्ट ले0 कमाण्डर ओमन नेयन	20-09-2014

एच एस संधू
ब्रिगेडियर

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

संख्या 302, दिनांक 11 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :—

कर्नल से ब्रिगेडियर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ब्रिगेडियर रोसली मैथ्यू	एन आर-16833 एन	01 जून 2014

ले0 कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कर्नल मरियम्मा फिलिप	एन आर-17709 वाई	15 मई 2014

मेजर से ले0 कर्नल (समयमान)

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ले0 कर्नल ब्लेज जॉनी वी	एन आर-21003 एफ	08 मार्च 2014

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन रश्मि कुमारी	एन आर-22754 पी	01 मार्च 2014
कैप्टन ज्योति मिश्रा	एन आर-22755 एक्स	01 मार्च 2014

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन सोना वर्मा	एन आर-22756 ए	01 मार्च 2014
कैप्टन शिवांगी क्षेत्री	एन आर-22757 एच	01 मार्च 2014
कैप्टन नीलम कुंवर	एन आर-22758 एल	01 मार्च 2014
कैप्टन निशा चहर	एन आर-22759 एन	01 मार्च 2014
कैप्टन लुंगाईकिम जो	एन आर-22760 एच	01 मार्च 2014
कैप्टन संगीता दे	एन आर-22761 एल	01 मार्च 2014
कैप्टन अनिना अनियन के	एन आर-22762 एन	01 मार्च 2014
कैप्टन गायत्री पात्रा	एन आर-22763 डब्ल्यू	01 मार्च 2014
कैप्टन सुधा झा	एन आर-22764 वाई	01 मार्च 2014
कैप्टन कविता बी	एन आर-22765 एल	01 मार्च 2014
कैप्टन सुमी एस सिवन	एन आर-22766 के	01 मार्च 2014
कैप्टन नुतन यादव	एन आर-22767 एम	01 मार्च 2014
कैप्टन सुमी तेहलान	एन आर-22768 पी	01 मार्च 2014
कैप्टन तृप्ति कला	एन आर-22769 एक्स	01 मार्च 2014
कैप्टन नीलम तोमर	एन आर-22770 एम	01 मार्च 2014
कैप्टन पूनमजीत कौर	एन आर-22771 पी	01 मार्च 2014
कैप्टन रीतु कुमारी	एन आर-22772 एक्स	01 मार्च 2014
कैप्टन रुबीना डी विश्वनाथ	एन आर-22773 ए	01 मार्च 2014
कैप्टन ज्योत्सना	एन आर-22774 एच	01 मार्च 2014
कैप्टन अर्पिता कुमारी	एन आर-22775 एल	01 मार्च 2014
कैप्टन पुष्पा	एन आर-22776 एन	01 मार्च 2014
कैप्टन कविता कुमारी	एन आर-22777 डब्ल्यू	01 मार्च 2014
कैप्टन श्रीदेवी सी सी	एन आर-22778 वाई	01 मार्च 2014
कैप्टन प्रियंका शर्मा	एन आर-22779 एफ	01 मार्च 2014
कैप्टन सुजाता साहा	एन आर-22780 डब्ल्यू	01 मार्च 2014
कैप्टन हिमा के के	एन आर-22781 वाई	01 मार्च 2014
कैप्टन सरोज कुमारी गुप्ता	एन आर-22782 एफ	01 मार्च 2014
कैप्टन सिमरजोत कौर	एन आर-22783 के	01 मार्च 2014
कैप्टन मीनाक्षी झांगरा	एन आर-22784 एम	01 मार्च 2014
कैप्टन सलमा वी एस	एन आर-22785 पी	01 मार्च 2014
कैप्टन अनु एम	एन आर-22786 एक्स	01 मार्च 2014
कैप्टन कार्तिका एस	एन आर-22787 ए	01 मार्च 2014
कैप्टन पूजा कुमारी	एन आर-22788 एच	01 मार्च 2014
कैप्टन गौतमी सरस्वती	एन आर-22789 एल	01 मार्च 2014

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन सुनीता	एन आर-22790 ए	01 मार्च 2014
कैप्टन वीनो राव	एन आर-22791 एच	01 मार्च 2014
कैप्टन दिव्या वी	एन आर-22792 एल	01 मार्च 2014
कैप्टन श्रुति केमल	एन आर-22793 एन	01 मार्च 2014
कैप्टन बबिता के	एन आर-22794 डब्ल्यू	01 मार्च 2014

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

थल सेना विभाग

सं 303, दिनांक 11 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अस्थाई कमीशन)
निवृत्ति

क्रम सं.	निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
क	डी एस -12454ए	कप्तान	(सुश्री) श्वेता बंसल	20-08-2014 (सांय)

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं 304, दिनांक 12 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना
सेवानिवृत्त

ले0 कर्नल ए पी सिंह	टीए-42169	(इन्जीनियर टीए)	31 जनवरी 2014 (अप.)
---------------------	-----------	-----------------	---------------------

बी बी जोशी
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 305, दिनांक 12 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं :-

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)
सेवानिवृत्ति

क्रम सं.	निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
क	डीआर-10394एक्स	कर्नल	अभय देशमुख	30-06-2014 (सांय)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवानिवृत्त, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)
समयपूर्व सेवा निवृत्ति

क्रम सं.	निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
क	डीआर-10433एल	कर्नल	डी एस जे डीसूजा	14-08-2014 (सांय)

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

सं. 306, दिनांक 15 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से निवृत्त करते हैं :—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन कमीशन)
निवृत्ति

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	निवृत्ति की तिथि
क	डी एस-12192पी	मेजर विनोद पाल के	29-04-2014 (सांय)
ख	डी एस-12267एफ	मेजर लोकेश खट्टर	29-04-2014 (प्रातः)

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th December 2014

ARMY BRANCH

No. 298, dated 9th December 2014—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(SHORT SERVICE COMMISSION)

TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

(Antedate of Commission)

DS-12485A, Capt Varun Rana - 07-02-2013

with seniority for pay and promotion from 07-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from the Tamil Nadu Dr MGR Medical University, Chennai, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12487L Capt Sampann Chowdhry - 09-02-2013

with seniority for pay and promotion from 09-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences, Rohtak (Hry), which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12489W Capt Tapan Singh - 12-02-2013

with seniority for pay and promotion from 12-08-2009 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Dr Ram Manohar Lohia Avadh University, Chennai and 06 months for holding hospital appointment as a Lecturer in Dr BR Ambedkar Institute of Dental Sciences & Hospital, Patna from 19 Sep 2008 to 30 Apr 2009, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12493Y Capt Kritant Bhushan - 16-02-2013

with seniority for pay and promotion from 16-08-2009 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka and 06 months for holding hospital appointment as a House Surgeon in Indira Gandhi Govt Dental College/ Hospital, Jammu from 17 Jul 2008 to 08 Jun 2009, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled

DS-12494F Capt Desai Jimish Bhavik Kumar - 16-02-2013

with seniority for pay and promotion from 16-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Manipal college of Dental Sciences, Manipal, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12499A Capt Sonawane Devendra Lotes - 19-02-2013

with seniority for pay and promotion from 19-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik (Mah), which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12500K Capt Nookala Aniket Ramamurthy - 20-02-2013

with seniority for pay and promotion from 20-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12504A Capt Himanshu Thukral - 22-02-2013

with seniority for pay and promotion from 22-02-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (UP), which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled

DS-12505H Capt Aditi Rawat - 02-03-2013

with seniority for pay and promotion from 02-03-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12508W Capt Sushmita Debnath - 10-03-2013

with seniority for pay and promotion from 10-03-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12510N Capt Jasmeet Gill - 14-03-2013

with seniority for pay and promotion from 14-03-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12511W Capt Saleem Akhtar - 14-03-2013

with seniority for pay and promotion from 14-09-2009 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from University of Delhi and 06 months for holding hospital appointment as Junior Resident (Dental) in Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi from 09 Jan 2008 to 08 Jul 2008, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12527F Capt (Ms) Harmanpreet Atwal - 27-12-2013

with seniority for pay and promotion from 27-06-2013 (includes 06 months Antedate for holding Hospital appointment as a Lecturer in Army College of Dental Sciences, for the period from 03-01-2011 to 01-03-2012, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 16 Aug 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12540L Capt Lakhveer Kaur - 27-12-2013

with seniority for pay and promotion from 27-06-2010 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS degree from Manipal College of Dental Sciences, Manipal and 06 months for holding hospital appointment as Lecturer in Army College of Dental Sciences, Andhra Pradesh from 16 Jan 2009 to 19 Jan 2010, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 22 Feb 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

HS SANDHU
Brig

REGULAR ARMY

MILITARY NURSING SERVICES
(PERMANENT COMMISSION)

No. 299, dated 9th December 2014—The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 04 MAR 2013.

TO BE LT ON PROBATION

LT	MANDEEP KAUR	NR	23076 M	7/11/1983
----	--------------	----	---------	-----------

(SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 15 May 2013 (Seniority from 15 May 2012 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing) :-

TO BE LT ON PROBATION

	RANK & NAME	PERS NO.	DATE OF BIRTH
LT	JISHA S RAMAN	NS 23123Y	05/02/1989
LT	JYOTHI R NAIR	NS 23124F	17/03/1988
LT	P MANI MALA	NS 23126M	17/05/1989
LT	ARYA ARVIND	NS 23127P	21/01/1990
LT	MADHU SINGH	NS 23128X	24/04/1990
LT	SARITA	NS 23129A	25/01/1989
LT	S JEMILA JOSPHIN	NS 23130P	07/05/1989
LT	P DEBORAH	NS 23131X	04/04/1985
LT	RASHMI KV	NS 23132A	24/06/1989
LT	KIRTHIGA USHA R	NS 23133H	15/06/1991
LT	GRACE SUJA S	NS 23134L	13/03/1987
LT	NEENU S	NS 23135N	19/05/1989
LT	SAYANAMARY ES	NS 23137Y	31/03/1988
LT	REMYA RAJ R	NS 23138F	09/06/1988
LT	PROMILA DEVI	NS 23140Y	03/08/1988
LT	SULOCHANA KUMARI	NS 23141F	26/09/1989
LT	DEEPA T	NS 23142K	29/03/1990
LT	MAMTA AKODIA	NS 23144P	30/10/1988
LT	RAJESWARI S	NS 23145X	05/06/1986
LT	DIVYA THOMAS	NS 23146A	15/06/1986
LT	SASIKALA T	NS 23148L	24/11/1983
LT	KIRAN DHIMAN	NS 23149N	03/12/1989

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	HARSHANDEEP KAUR	NS	23150H	25/07/1985
LT	SREEJA KUMARI SU	NS	23151L	31/05/1988
LT	JYOTHI GIRI	NS	23152N	25/05/1989
LT	PEMA YANGZAM	NS	23153W	29/10/1986
LT	TARANDEEP KAUR	NS	23154Y	19/04/1988
LT	LAKSHMI S NAIR	NS	23155F	13/05/1986
LT	RAMANJEET KAUR	NS	23156K	08/11/1989
LT	SUGISHNA SURESH S	NS	23157M	18/08/1989
LT	ANNU DHATWALIA	NS	23158P	18/12/1988
LT	SHILPI MONI BORUAH	NS	23159X	31/12/1987
LT	TELVUM NANGNEIMHOI HAOKIP	NS	23160M	29/03/1989
LT	JYOTI RANA	NS	23161P	30/07/1991
LT	MONIKA SONI	NS	23162X	05/07/1987
LT	MANBIR KAUR	NS	23163A	17/04/1989
LT	GODDAMEEDI REKHA	NS	23164H	15/07/1989
LT	SEEMA KUMARI	NS	23168Y	13/10/1986
LT	STEFY JOSE	NS	23169F	05/05/1988
LT	PREETHI S	NS	23170W	10/03/1989
LT	SHWETA PANDEY	NS	23171Y	28/07/1988
LT	NAYANA G PILLAI	NS	23172F	11/04/1989
LT	PRINCY WILSON	NS	23173K	18/09/1991
LT	N PRIYADARSHINI	NS	23174M	28/09/1986
LT	DHANYA KRISHNA D	NS	23175P	08/09/1987
LT	POOJA KUMARI	NS	23176X	02/01/1990
LT	VASUDEVA RAJANI	NS	23177A	18/06/1987
LT	SOUMYAMOL S N	NS	23178H	11/04/1988
LT	D SHALINI	NS	23180A	01/05/1987
LT	SHALU S KUMAR	NS	23181H	11/10/1989
LT	BHARATHI MUNNANGI	NS	23182L	16/09/1985
LT	SUNITHA G GOPAL	NS	23183N	07/09/1989
LT	LINI LUCAS	NS	23184W	09/06/1988
LT	THUSHARA M R	NS	23185Y	08/11/1988
LT	MERWIN THOMAS	NS	23186F	28/03/1988
LT	AKSHARA RAJ	NS	23188M	18/09/1990
LT	PAVITHRA BS	NS	23189P	21/03/1989
LT	GURLEEN KAUR	NS	23190K	07/09/1987

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	BESTHA CHANDRAKALA	NS	23191M	09/07/1990
LT	MANJU KUMARI	NS	23192P	14/11/1983
LT	RAKHI R	NS	23193X	02/05/1989
LT	JANCY CLEETUS	NS	23194A	30/05/1986
LT	RANI GEORGE	NS	23195H	29/01/1990
LT	M SUBHASHINI	NS	23196L	20/02/1991
LT	VIJAYA BHARATHI V	NS	23197N	10/07/1990
LT	TESSA EMMANUEL VEEDON	NS	23198W	21/08/1984
LT	DEVI S NAIR	NS	23199Y	11/08/1988
LT	NIMI SREEPRIYA	NS	23200H	08/10/1986
LT	G GAYATHRI	NS	23201L	13/12/1986
LT	TAMILSELVI T	NS	23202N	06/10/1987
LT	ANITA KANDPAL	NS	23203W	11/03/1989
LT	DEEPIKA R	NS	23204Y	29/05/1989
LT	M KEERTHI	NS	23205F	22/09/1989
LT	GAGANDEEP KAUR	NS	23206K	01/11/1988
LT	ANITA MAURYA	NS	23207M	08/08/1989
LT	JASWINDER KAUR	NS	23208P	02/08/1985
LT	SOBHARANI GODUGU	NS	23209X	27/11/1986
LT	VIJILA KV	NS	23210M	15/04/1990
LT	NEETHUMOL JOSEPH	NS	23211P	16/01/1989
LT	RADHIKA KUMARI	NS	23212X	18/08/1988
LT	STEPHY THOMAS	NS	23213A	02/09/1989
LT	NAVJOT KAUR	NS	23214H	14/11/1986
LT	UDAYASREE VINNAKOTA	NS	23215L	06/05/1987
LT	DEVUMOL J	NS	23216N	25/05/1988
LT	PUNAM RANA	NS	23217W	21/01/1990
LT	LEENA ABRAHAM	NS	23218Y	22/12/1987
LT	KRISHNA PRIYA VN	NS	23219F	25/05/1989
LT	NISHA YADAV	NS	23220W	23/12/1989
LT	MODHINI P	NS	23221Y	21/08/1990
LT	EKTA SHARMA	NS	23222F	29/01/1990
LT	ARATHY GP	NS	23223K	04/11/1988
LT	LAKSHMI PRIYA SINGIREESU	NS	23224M	21/06/1987
LT	MONIKA	NS	23225P	21/03/1991
LT	AMARJEET KAUR	NS	23226X	27/09/1988

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	SUSHILA	NS	23228H	10/08/1987
LT	RINU NASSAR	NS	23229L	18/05/1990
LT	JIBILA PK	NS	23230A	14/02/1990
LT	ABITHA ALEX	NS	23231H	05/01/1989
LT	SREE LAKSHMI GS	NS	23233N	08/05/1988
LT	KOMAL PREET KAUR	NS	23234W	05/11/1989
LT	RAMAN DEEP KAUR	NS	23235Y	25/11/1990
LT	STEPHY KURIAKOSE	NS	23236F	05/07/1988
LT	SARITHA S	NS	23237K	10/04/1989
LT	SUDHA TALIKOTI	NS	23238M	01/08/1987
LT	E SHALINI	NS	23239P	27/05/1990
LT	LINI MATHAI	NS	23240K	29/04/1987
LT	SARIKA REMANAN	NS	23241M	17/03/1988
LT	SHIMALI PATHANIA	NS	23242P	11/08/1988
LT	MALTI	NS	23243X	30/08/1988
LT	VIDYA P	NS	23244A	25/10/1988
LT	GLINTA RAJU	NS	23245H	09/03/1984
LT	NEETHU SEBASTIAN	NS	23246L	28/12/1989

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 300, dated 10th December 2014—The President is pleased to confirm the services of the undermentioned Captains on completion of their probationary period with effect from the dates shown against each:-

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

1.	VS-1199Y	Sonu Mahesh	RVC	12 Aug 2013
2.	VS-1200H	Surender Kumar	RVC	12 Aug 2013
3.	VS-1201L	Anurag Chandra Hati Boruah	RVC	12 Aug 2013
4.	VS-1202N	Pawan Kumar	RVC	12 Aug 2013
5.	VS-1203W	Bhanu Pratap Singh Thakur	RVC	12 Aug 2013
6.	VS-1204Y	Alfaishe Rasheed	RVC	12 Aug 2013
7.	VS-1205F	Virender Pratap Rana	RVC	12 Aug 2013
8.	VS-1206K	Mool Chand Yadav	RVC	12 Aug 2013
9.	VS-1207M	Jones Bobby	RVC	12 Aug 2013
10.	VS-1208P	Jagdeep	RVC	12 Aug 2013

DEEPAK NARANG
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 301, dated 10th December 2014—The President is pleased to make the following promotion (PC) under AI 37/78 as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

COL (& EQUIV) TO BE BRIG

Sr No	Pers No	Rank	Name	Remarks
(a)	DR-10371W	Gp Capt	Anil Dhingra	26-03-2012 (with notional seniority 01-01-2012 without effect on pay & allowances)

Maj to be Lt Col (& equiv)

Ser No	Per No	Rank	Name	Date of Promotion
(a)	DR-10585M	Maj	Raj Kumar K	19-06-2014

PROMOTION FROM SURG LT CDR TO SURG CDR

Ser No	Per No	Rank & Name	Date of Promotion
(a)	DR-10596Y	Surg Lt Cdr Kamalpathey K	19-08-2014
(b)	DR-10587X	Surg Lt Cdr Saugat Ray	08-09-2014
(c)	DR-10598K	Surg Lt Cdr Oommen Nainan	20-09-2014

HS SANDHU
Brig

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

No. 302, dated 11th December 2014—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:-

COLONEL TO BRIGADIER

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
BRIG ROSALY MATHEW	NR-16833 N	01 JUN 2014

LT COL (SELECT) TO COL

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Col Mariamma Philip	NR-17709 Y	15 May 2014

MAJOR TO LT COL (TS)

RANK	NAME	PERS NO	DATE OF PROMOTION
LT COL(TS)	BLAIZE JOHNY V	NR-21003 F	08 MAR 2014

LT TO CAPT

Rank & Name	Service No.	Date of Promotion
-------------	-------------	-------------------

Rank & Name		Service No.		Date of Promotion
CAPT	RASHMI KUMARI	NR	22754P	01/03/2014
CAPT	JYOTI MISHRA	NR	22755X	01/03/2014
CAPT	SONA VERMA	NR	22756A	01/03/2014
CAPT	SHIVANGI CHETTRI	NR	22757H	01/03/2014
CAPT	NEELAM KUNWAR	NR	22758L	01/03/2014
CAPT	NISHA CHAHAR	NR	22759N	01/03/2014
CAPT	LUNNGAIHKIM ZOU	NR	22760H	01/03/2014
CAPT	SANGITA DEY	NR	22761L	01/03/2014
CAPT	ANEENA ANIYAN K	NR	22762N	01/03/2014
CAPT	GAYATRI PATRA	NR	22763W	01/03/2014
CAPT	SUDHA JHA	NR	22764Y	01/03/2014
CAPT	KAVITHA B	NR	22765L	01/03/2014
CAPT	SUMI S SIVAN	NR	22766K	01/03/2014
CAPT	NUTUN YADAV	NR	22767M	01/03/2014
CAPT	SUMI TEHLAN	NR	22768P	01/03/2014
CAPT	TRIPTI KALA	NR	22769X	01/03/2014
CAPT	NEELAM TOMAR	NR	22770M	01/03/2014
CAPT	POONAMJIT KAUR	NR	22771P	01/03/2014
CAPT	RITU KUMARI	NR	22772X	01/03/2014
CAPT	RUBINA D VISHWANATH	NR	22773A	01/03/2014
CAPT	JYOTSNA	NR	22774H	01/03/2014
CAPT	ARPITA KUMARI	NR	22775L	01/03/2014
CAPT	PUSHPA	NR	22776N	01/03/2014
CAPT	KAVITA KUMARI	NR	22777W	01/03/2014
CAPT	SREEDEVI CC	NR	22778Y	01/03/2014
CAPT	PRIYANKA SHARMA	NR	22779F	01/03/2014
CAPT	SUJATA SAHA	NR	22780W	01/03/2014
CAPT	HIMA K K	NR	22781Y	01/03/2014
CAPT	SAROJ KUMARI GUPTA	NR	22782F	01/03/2014
CAPT	SIMARJOT KAUR	NR	22783K	01/03/2014
CAPT	MINAKSHI JANGRA	NR	22784M	01/03/2014
CAPT	SALMA VS	NR	22785P	01/03/2014
CAPT	ANU M	NR	22786X	01/03/2014

Rank & Name		Service No.		Date of Promotion
CAPT	KARTHIKA S	NR	22787A	01/03/2014
CAPT	POOJA KUMARI	NR	22788H	01/03/2014
CAPT	GAUTAMI SARSWATI	NR	22789L	01/03/2014
CAPT	SUNITA	NR	22790A	01/03/2014
CAPT	VEENO RAO	NR	22791H	01/03/2014
CAPT	DIVYA V	NR	22792L	01/03/2014
CAPT	SHRUTI KAIMAL	NR	22793N	01/03/2014
CAPT	BABITHA K	NR	22794W	01/03/2014

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 303, dated 11th December 2014— The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign from Army Service, w.e.f. the date shown against her name under AI 15/79.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
RESIGNATION

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of resignation
(a)	DS-12454A	Capt	Shweta Bansal	20-08-2014 (AN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 304, dated 12th December 2014—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain their rank and wearing of uniform :-

TERRITORIAL ARMY
RETIREMENT

Lt Col AP Singh	TA-42169	Engr (TA)	31 Jan 2014 (AN)
-----------------	----------	-----------	------------------

B B JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 305, dated 12th December 2014—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
RETIREMENT

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of Retirement
(a)	DR-10394X	Col	Abhay Deshmukh	30-06-2014 (AN)

The President is pleased to permit the undermentioned officer to prematurely retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78:

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION
PREMATURE RETIREMENT

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of Premature Retirement
(a)	DR-10433L	Col	DSJ D'Souza	14 Aug 2014 (AN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 306, dated 15th December 2014—The President is pleased to release the undermentioned Officers from Army Service w.e.f. the dates shown against their names under AI 15/79.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
RELEASE

S No	Pers No	Rank & Name	Date of Release
(a)	DS-12192P	Maj Vinod Paul K	29-04-2014 (AN)
(b)	DS-12267F	Maj Lokesh Khattar	29-04-2014 (FN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in